



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 41

फरवरी 06, 2026

संख्या 6

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2025	2026		घट - बढ़	
	जनवरी 31	जनवरी 23	जनवरी 30	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3564977	3960205	3957219	-2986	392243
1.1 संचलन में नोट	3564965	3960191	3957204	-2987	392239
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	14	15	1	3
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	43	43	0	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	924083	755585	765515	9930	-158568
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7772	7289	6993	-297	-779
2.6 अन्य बैंक	50842	42182	41954	-229	-8889
2.7 अन्य	463755	822482	891538	69055	427783
3 अन्य देयताएं	2034572	3045272	3234854	189583	1200282
कुल देयताएं / आस्तियां	7046144	8633159	8898216	265057	1852072
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4691950	5205254	5202223	-3031	510273
2 सोना	614008	1131929	1266470	134541	652462
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1317910	2007684	2063554	55870	745644
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	19332	16817	13448	-3370	-5884
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	256989	76369	136350	59981	-120639
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	122041	163353	183645	20292	61604
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	21851	29689	30463	774	8612

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जनवरी 30, 2026 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6657540	723774	133896	14361	945400	55448	1195799	93167
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5173119	562392	-3208	-493	322285	-5165	516201	24708
1.2 स्वर्ण	1266470	137683	134541	14595	598307	59507	652462	66791
1.3 विशेष आहरण अधिकार	174333	18953	2031	216	19044	783	19392	1063
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	43619	4746	533	44	5763	323	7744	606

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसई मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जनवरी 31, 2026 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 764046 करोड़	2026															
	जनवरी 16	जनवरी 17	जनवरी 18	जनवरी 19	जनवरी 20	जनवरी 21	जनवरी 22	जनवरी 23	जनवरी 24	जनवरी 25	जनवरी 26	जनवरी 27	जनवरी 28	जनवरी 29	जनवरी 30	जनवरी 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	776185	767220	769613	777700	765390	765267	750725	761417	774749	772777	767783	758810	756069	760379	771245	762104
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.6	100.4	100.7	101.8	100.2	100.2	98.3	99.7	101.4	101.1	100.5	99.3	99.0	99.5	100.9	99.7

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	जनवरी 15, 2026 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दूर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	334595	-5516	-22767	25181	8948	62891
1.2 बैंकों से उधार	80441	-3569	-38965	-31535	-37516	-63023
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	33029	209	-44392	3113	-41687	4969
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24499894	-357599	1675948	1919293	2166340	2348720
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.4	8.2	8.5	10.8	10.6
2.1.1 मांग	2990792	-283930	34327	292743	212780	512612
2.1.2 मीयादी	21509103	-73668	1641621	1626550	1953560	1836108
2.2 उधारियां	921543	95965	145505	6295	97432	-1905
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1062922	-5101	45423	1291	110636	80071
3 रिज़र्व बैंक से उधार	32336	-136638	69933	-279130	60006	-260313
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	796313	234	-9130	-167976	5543	-215473
4.1 उपलब्ध नकदी	78479	-4983	-8249	-3395	-5747	-2706
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	717834	5217	-881	-164581	11290	-212768
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	280252	8589	5774	64450	9671	76150
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	32229	-3868	-387	6391	191	20261
5.3 बैंकों को अग्रिम	32218	-3074	-9183	-7285	-3035	-6967
5.4 अन्य आस्तियां	67909	-1299	-59315	556	-36843	11800
6 निवेश	6807967	-77016	521868	110040	622133	179541
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.1	8.5	1.6	10.4	2.7
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6807467	-77016	522304	110169	622348	179553
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	501	1	-436	-129	-214	-12
7 बैंक ऋण	20132365	-188423	1367230	1888393	1829468	2332971
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.9	8.3	10.4	11.5	13.1
7 क.1 खाद्य ऋण	88169	197	34642	51638	13754	30446
7 क.2 खाद्येतर ऋण	20044196	-188619	1332588	1836755	1815714	2302525
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	19734276	-180846	1341140	1824425	1788530	2258833
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	95391	-1549	13939	20428	22696	20985
7 ख.3 भुनाए गए	266853	-4773	14267	45794	19290	55228
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12779	-837	-711	-2343	-980	-2922
7 ख.5 भुनाए गए	23066	-417	-1405	89	-68	847

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समाप्त पखवाड़ा #	2025			2026		
	जनवरी 10	दिसंबर 31		जनवरी 15		
	1	2		3		
अनुपात						
नकदी-जमाराशि अनुपात		4.57		3.20		3.25
ऋण-जमाराशि अनुपात		80.35		81.75		82.17
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात		81.58		91.21		98.39
निवेश-जमाराशि अनुपात		29.92		27.70		27.79
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात		31.14		8.22		5.73
यद/समाप्त सप्ताह	2025	2026				
	जनवरी 31	जनवरी 02	जनवरी 09	जनवरी 16	जनवरी 23	जनवरी 30
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
बैंक दर	6.75	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.70/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95
सांविधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/6.50	6.00/6.50	6.00/6.50	6.00/6.50	6.00/6.50
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत)	6.57	5.43	5.37	5.36	5.43	5.34
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.56	..	5.31	5.34	5.49	5.50
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.67	..	5.54	5.60	5.66	5.68
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.63	..	5.58	5.63	5.72	5.74
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.71	6.69	6.71	6.75	6.74	6.77
एफबीआईएल® संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्फॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	86.64	90.12	90.14	90.65	91.62	91.90
भारतीय रुपया-यूरो स्फॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.01	105.84	105.01	105.22	107.62	109.57
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	2.80	2.57	3.09	3.10	2.65	2.36
3-माह	2.69	2.90	3.38	3.51	3.09	2.83
6-माह	2.30	2.55	2.95	3.06	2.75	2.65

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।
@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फारवर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025	2026	पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2025		2026	
	मार्च 31	जनवरी 15*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	29502905	-295639	-1.0	1771650	7.1	2216316	8.1	2381789	9.8	2791395	10.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3889772	61412	1.6	86943	2.5	259021	7.1	185348	5.6	392554	11.2
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3137965	-284693	-8.3	32397	1.3	297942	10.5	211277	8.8	518680	19.8
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	22358589	-73938	-0.3	1643221	8.7	1656081	8.0	1960004	10.6	1867208	9.1
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	116579	1580	1.4	9089	9.6	3272	2.9	25160	32.1	12953	12.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8835589	84904	1.0	434796	5.7	324764	3.8	713240	9.7	797222	9.9
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1707315	161754		-88503		199210		88673		602605	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7128274	-76850	-1.1	523299	8.2	125555	1.8	624567	9.9	194617	2.8
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20958810	-185980	-0.9	1385787	8.1	1890681	9.9	1871988	11.2	2370191	12.8
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	16954	-3368		-3894		-21292		5285		6441	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20941856	-182612	-0.9	1389681	8.1	1911973	10.0	1866703	11.2	2363750	12.7
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6649134	63662	1.0	134965	2.4	500607	8.1	419668	7.9	946666	16.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	39895	0	0	2251	6.7	3264	8.9	3086	9.5	4212	11.8
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6980523	258225	3.8	186149	3.4	502999	7.8	626192	12.5	1326897	23.5
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2839420	69926	2.5	120614	6.7	691994	32.2	170522	9.8	928673	48.6

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

^: 31 दिसंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन के साथ, मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े माह की 15वीं और अंतिम तारीख के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025	2026	पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2025		2026	
	मार्च 31	जनवरी 15*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4862647	63512	1.3	50891	1.1	33405	0.7	214088	4.8	180311	3.9
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3979951	56428	1.4	78506	2.2	255503	6.9	179468	5.3	389984	10.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	766118	5503	0.7	-36704	-3.6	-225371	-22.7	9460	1.0	-222627	-22.5
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	116579	1580	1.4	9089	9.6	3272	2.9	25160	32.1	12953	12.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1707315	161754		-88503		199210		88673		602605	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1687836	158526		-96523		212376		90140		597704	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-107228	-91978		273227		11787		50483		-334309	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-124182	-88610		277121		33079		45198		-340750	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6062086	63662	1.1	-15471	-0.3	511139	9.2	242368	4.9	836475	16.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	39895			2251	6.7	3264	8.9	3086	9.5	4212	11.8
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2839420	69926	2.5	120614	6.7	691994	32.2	170522	9.8	928673	48.6

^: 31 दिसंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के अंतर्गत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन होने के कारण आरक्षित मुद्रा के संबंध में ये आंकड़े महीने के 15वें एवम अंतिम दिन के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुद्रत)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		7	8	
जनवरी 26, 2026	-	-	-	-	191	141031	-	-	-	-140840
जनवरी 27, 2026	-	-	-	-	17951	141425	-	-	1180	-122294
जनवरी 28, 2026	-	-	6235	-	598	114328	-	-	-	-107495
जनवरी 29, 2026	-	-	-	-	1345	103800	-	-	-	-102455
जनवरी 30, 2026	-	-	136504	-	2537	298644	-	-	53560	-106043
जनवरी 31, 2026	-	-	-	-	1020	330240	-	-	-	-329220
फरवरी 01, 2026	-	-	-	-	614	198361	-	-	-	-197747

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024	2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	195.4	197.9	198.0	0.1	3.1	1.3
1.1 ग्रामीण	198.4	199.6	199.9	0.2	3.1	0.8
1.2 शहरी	192.0	195.9	195.9	0.0	3.2	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	143.7	148.2	148.2	0.0	3.6	3.1
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	155.7	155.9	157.0	0.7	1.4	0.8
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	193.8	192.1	194.2	1.1	4.7	0.2
3.2 ईंधन और बिजली	151.8	146.5	148.3	1.2	-2.5	-2.3
3.3 विनिर्मित उत्पाद	143.0	145.0	145.6	0.4	0.7	1.8

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जनवरी 15, 2026	574586	40189	5.25 - 6.70
जनवरी 31, 2026	588699	64410	5.25 - 7.84

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जनवरी 15, 2026	453839	26659	5.92 - 13.42
जनवरी 31, 2026	438787	41076	6.18 - 14.47

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जनवरी 31, 2025	जनवरी 23, 2026	जनवरी 30, 2026
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	23225	27303	28120
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	5395	2055	9372
3 त्रिपक्षीय रेपो	744181	825908	1038585
4 बाजार रेपो	606457	631318	771848
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	7411	18256	17852

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जनवरी 30, 2026 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	11852	12338	81335	186135
182-दिवसीय	39614	64620	7264	200564
364-दिवसीय	63543	98996	38336	349636
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (जनवरी 30, 2026 तक)	2024-25 (जनवरी 31, 2025 तक)	2024-25	2025-26 (जनवरी 30, 2026 तक)	2024-25 (जनवरी 31, 2025 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1275000	1243697	1400697	879334	882275	1039275
2. राज्य सरकारें	861568	725820	1073310	575656	483815	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।